

प्रेषक,

अजय कुमार दीक्षित
न्यायिक सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
पीठ-प्रथम मेरठ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।
द्वारा श्रीमान अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय— वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के प्रोपर्टी स्टेटमैन्ट विलम्ब से माननीय न्यायालय के पोर्टल पर प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे द्वारा वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के प्रोपर्टी स्टेटमैन्ट माननीय न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड किये गये, उक्त वर्षों के प्रोपर्टी स्टेटमैन्ट को भेजने में हुआ विलम्ब स्टेटमैन्ट भेजने की समय सीमा का ध्यान न रहने के कारण हुआ है, भविष्य में यह त्रुटि मेरे द्वारा कदापि नहीं होगी। माननीय न्यायालय से आदर सहित अनुरोध है कि उक्त वर्षों के प्रोपर्टी स्टेटमैन्ट, भेजने में हुयी देरी को क्षमा करते हुए, स्वीकार किये जाये। मैं प्रोपर्टी स्टेटमैन्ट भेजने में हुयी देरी के लिए पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इसका सदैव आभारी रहूँगा।

आदर सहित।

भवदीय

A. ५.००/२५

(अजय कुमार दीक्षित)
न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,
मेरठ पीठ-प्रथम मेरठ।